



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)
(सं० पटना 849) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद

अधिसूचना

17 फरवरी 2016

सं० 3772—श्री राम जानकी मठ, ग्राम—मंसूरपुर, पो०—पाना छपरा, थाना+अंचल—मोतीपुर, जिला—मुजफ्फरपुर पर्वद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—142 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था एवं विकास के लिए पर्वदीय अधिसूचना ज्ञापांक—2032 दिनांक 31.01.14 द्वारा एक न्यास समिति का गठन 01 वर्षों के लिए किया गया था, इसका कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् दिनांक 04.06.2015 को न्यास समिति के कार्य—काल का विस्तार तीन महीने के लिए किया गया, उक्त कार्यावधि भी समाप्त हो गयी।

निवर्तमान न्यास समिति के अध्यक्ष द्वारा नवीन न्यास समिति के गठन हेतु सदस्यों का नाम भेजा गया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में न्यास के सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एवं नवीन न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी मठ, ग्राम—मंसूरपुर, पो०—पाना छपरा, थाना+अंचल—मोतीपुर, जिला—मुजफ्फरपुर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी मठ, मंसूरपुर न्यास समिति होगी” न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम जानकी मठ, मंसूरपुर न्यास समिति होगी” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय—व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
 8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
 9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिवित्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
 10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
 11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
- पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- | | |
|--|-----------|
| (1) श्री भवचन्द्र पाण्डे भानु पिता श्री मटुकधारी पाण्डेय,
ग्राम-नवलपुर, थाना-कथैया, जिला-मुजफ्फरपुर | — अध्यक्ष |
| (2) श्री रंजीत तिवारी पे0 श्री गगनदेव तिवारी, ग्राम-साढ़ा | — |
| (3) श्री मंगलेश्वर पटेल पे0 श्री गणेश राय, ग्राम-मंसुरपुर | — |
| (4) श्री अरुण कुमार पटेल पे0 स्व0 विश्वनाथ पटेल, ग्राम-मंसुरपुर | — |
| (5) श्री सुरेश दास पे0 श्री सीताराम साह, ग्राम-मंसुरपुर | — |
| (6) श्री दिग्गज चौधरी उर्फ दिना दास पे0 स्व0 रामाधार चौधरी, ग्राम-यशोदा मठ | — |
| (7) श्री बैद्यनाथ चौधरी पे0 स्व0 राजाराम चौधरी, ग्राम-कोन्हवा | — |
| (8) श्री सुखारी राम पे0 स्व0 शीवन राम, ग्राम-असनगर | — |
| (9) श्री मुसाफिर भगत उर्फ सत्यप्रकाश सुमन पे0 स्व0 लक्ष्मण भगत, ग्राम-जग्रनाथपुर | — |
| (10) श्री गोपाल सिंह पे0 स्व0 रामस्वरूप सिंह, ग्राम-बोअरिया | — |
| (11) श्री वृजकिशोर उपाध्याय पे0 श्री कमल उपाध्याय, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर | — |

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 25.02.2016 से पाँच वर्षों का होगा। उपर्युक्त सभी सदस्य एक बैठक कर सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन कर पर्षद् को सूचित करेंगे।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 849-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>